



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3802]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 26, 2018/आश्विन 4, 1940

No. 3802]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 26, 2018/ASVINA 4, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2018

का.आ. 4979(अ)—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के अकोला जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 161 के (बाइपासों सहित) 2.826 कि.मी. से 20.200 कि.मी. तक के भूखण्ड (नांदेड-हिंगोली-वाशिम-अकोला सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अकोला, जिला अकोला, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भूरेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध है और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के अकोला जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 161 के 2.826 कि.मी. से 20.200 कि.मी. तक (नांदेड-हिंगोली-वाशिम-अकोला सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: अकोला			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: अकोला					
गांव का नाम: अक्कलकोट					
1	1	निजी	एग्रीकल्चर & नॉन एग्रीकल्चर	0.05(हेक्टेयर)	0.05
2	20	निजी	एग्रीकल्चर & नॉन एग्रीकल्चर	0.13(हेक्टेयर)	0.13
गांव का नाम: अकोली खुर्द					
1	21	निजी	एग्रीकल्चर & नॉन एग्रीकल्चर	1.095(हेक्टेयर)	1.095
2	44	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.04(हेक्टेयर)	0.04
3	48	सरकारी	एग्रीकल्चर	1.12(हेक्टेयर)	1.12
4	49	सरकारी	एग्रीकल्चर	0.25(हेक्टेयर)	0.25
गांव का नाम: चांदुर					
1	170	निजी	एग्रीकल्चर & नॉन एग्रीकल्चर	0.39(हेक्टेयर)	0.39
2	215	निजी	एग्रीकल्चर	0.54(हेक्टेयर)	0.54
3	217	निजी	एग्रीकल्चर & नॉन एग्रीकल्चर	0.42(हेक्टेयर)	0.42
4	218	निजी	एग्रीकल्चर	0.05(हेक्टेयर)	0.05
5	219	निजी	एग्रीकल्चर	0.25(हेक्टेयर)	0.25
6	220	निजी	एग्रीकल्चर	0.1564(हेक्टेयर)	0.1564
7	83	निजी	एग्रीकल्चर	0.18(हेक्टेयर)	0.18
8	86	निजी	एग्रीकल्चर	0.2845(हेक्टेयर)	0.2845

9	रोड	सरकारी	रोड	0.12(हेक्टेयर)	0.12
गांव का नाम: चिखलगौंव					
1	1	निजी	एग्रीकल्चर	0.07(हेक्टेयर)	0.07
2	10	निजी	एग्रीकल्चर	0.03(हेक्टेयर)	0.03
3	11	निजी	एग्रीकल्चर	0.09(हेक्टेयर)	0.09
4	12	निजी	एग्रीकल्चर	0.02(हेक्टेयर)	0.02
5	13	निजी	एग्रीकल्चर	0.02(हेक्टेयर)	0.02
6	143	निजी	एग्रीकल्चर	0.12(हेक्टेयर)	0.12
7	144	निजी	एग्रीकल्चर	0.16(हेक्टेयर)	0.16
8	18	निजी	एग्रीकल्चर	0.7(हेक्टेयर)	0.7
9	182	निजी	एग्रीकल्चर	0.28(हेक्टेयर)	0.28
10	183	निजी	एग्रीकल्चर	0.6(हेक्टेयर)	0.6
11	19	निजी	एग्रीकल्चर	0.5(हेक्टेयर)	0.5
12	20	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.25(हेक्टेयर)	0.25
13	216	निजी	एग्रीकल्चर	0.23(हेक्टेयर)	0.23
14	217	निजी	एग्रीकल्चर	0.25(हेक्टेयर)	0.25
15	218	निजी	एग्रीकल्चर	0.12(हेक्टेयर)	0.12
16	219	निजी	एग्रीकल्चर	0.22(हेक्टेयर)	0.22
17	227	निजी	एग्रीकल्चर	0.16(हेक्टेयर)	0.16
18	228	निजी	एग्रीकल्चर	0.3(हेक्टेयर)	0.3
19	231	निजी	एग्रीकल्चर	0.23(हेक्टेयर)	0.23
20	232	निजी	एग्रीकल्चर	0.22(हेक्टेयर)	0.22
21	3	निजी	एग्रीकल्चर	0.07(हेक्टेयर)	0.07
22	4	निजी	एग्रीकल्चर	0.05(हेक्टेयर)	0.05
23	41	निजी	एग्रीकल्चर & नॉन एग्रीकल्चर	0.29(हेक्टेयर)	0.29
24	5	सरकारी	एग्रीकल्चर & नॉन एग्रीकल्चर	0.05(हेक्टेयर)	0.05
25	70	निजी	एग्रीकल्चर	0.07(हेक्टेयर)	0.07

26	71	निजी	एग्रीकल्चर	0.02(हेक्टेयर)	0.02
27	75	सरकारी	एग्रीकल्चर	0.69(हेक्टेयर)	0.69
28	76	सरकारी	एग्रीकल्चर & नॉन एग्रीकल्चर	0.47(हेक्टेयर)	0.47
29	86	निजी	एग्रीकल्चर	0.45(हेक्टेयर)	0.45
30	88	निजी	एग्रीकल्चर	0.26(हेक्टेयर)	0.26
31	89	निजी	एग्रीकल्चर	0.07(हेक्टेयर)	0.07
32	90	निजी	एग्रीकल्चर	0.21(हेक्टेयर)	0.21
33	94	निजी	एग्रीकल्चर	0.73(हेक्टेयर)	0.73
34	गोंठन	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.3(हेक्टेयर)	0.3

गांव का नाम: हिंगना म्हेसपुर

1	10, 11, 12, 13, 14, 15, 69 / 1 , 70 / 1, 74	सरकारी	एग्रीकल्चर & नॉन एग्रीकल्चर	0.69(हेक्टेयर)	0.69
2	16	निजी	एग्रीकल्चर & नॉन एग्रीकल्चर	0.02(हेक्टेयर)	0.02
3	17	निजी	एग्रीकल्चर	0.235(हेक्टेयर)	0.235
4	56	निजी	एग्रीकल्चर	0.03(हेक्टेयर)	0.03
5	57	निजी	एग्रीकल्चर	0.05(हेक्टेयर)	0.05
6	58	निजी	एग्रीकल्चर	0.01(हेक्टेयर)	0.01
7	63	निजी	एग्रीकल्चर	0.21(हेक्टेयर)	0.21
8	77	निजी	एग्रीकल्चर	0.09(हेक्टेयर)	0.09
9	78	निजी	एग्रीकल्चर & नॉन एग्रीकल्चर	0.2(हेक्टेयर)	0.2
10	79	निजी	एग्रीकल्चर	0.11(हेक्टेयर)	0.11
11	80	निजी	एग्रीकल्चर & नॉन एग्रीकल्चर	0.09(हेक्टेयर)	0.09
12	81	निजी	एग्रीकल्चर	0.06(हेक्टेयर)	0.06
13	89	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.02(हेक्टेयर)	0.02

गांव का नाम: कापशी रोड

1	10	निजी	एग्रीकल्चर	0.1(हेक्टेयर)	0.1
---	----	------	------------	---------------	-----

2	11	निजी	एग्रीकल्चर	0.06(हेक्टेयर)	0.06
3	12	निजी	एग्रीकल्चर	0.07(हेक्टेयर)	0.07
4	13	निजी	एग्रीकल्चर	0.24(हेक्टेयर)	0.24
5	138	निजी	एग्रीकल्चर	0.02(हेक्टेयर)	0.02
6	14	निजी	एग्रीकल्चर	0.11(हेक्टेयर)	0.11
7	16	निजी	एग्रीकल्चर	0.06(हेक्टेयर)	0.06
8	17	निजी	एग्रीकल्चर	0.05(हेक्टेयर)	0.05
9	178	निजी	एग्रीकल्चर	0.27(हेक्टेयर)	0.27
10	180	निजी	एग्रीकल्चर	0.06(हेक्टेयर)	0.06
11	20	निजी	एग्रीकल्चर	0.19(हेक्टेयर)	0.19
12	211	निजी	एग्रीकल्चर	0.15(हेक्टेयर)	0.15
13	3	निजी	एग्रीकल्चर & नॉन एग्रीकल्चर	0.01(हेक्टेयर)	0.01
14	32	निजी	एग्रीकल्चर	0.22(हेक्टेयर)	0.22
15	33	निजी	एग्रीकल्चर	0.04(हेक्टेयर)	0.04
16	34	निजी	एग्रीकल्चर	0.02(हेक्टेयर)	0.02
17	35	निजी	एग्रीकल्चर	0.04(हेक्टेयर)	0.04
18	40	निजी	एग्रीकल्चर	0.1(हेक्टेयर)	0.1
19	42	निजी	एग्रीकल्चर & नॉन एग्रीकल्चर	0.26(हेक्टेयर)	0.26
20	57	निजी	एग्रीकल्चर	0.01(हेक्टेयर)	0.01
21	6	निजी	एग्रीकल्चर	0.07(हेक्टेयर)	0.07
22	60	निजी	एग्रीकल्चर	0.03(हेक्टेयर)	0.03
23	61	निजी	एग्रीकल्चर	0.02(हेक्टेयर)	0.02
24	62	निजी	एग्रीकल्चर	0.04(हेक्टेयर)	0.04
25	63	निजी	एग्रीकल्चर	0.07(हेक्टेयर)	0.07
26	64	निजी	एग्रीकल्चर	0.05(हेक्टेयर)	0.05
27	65	निजी	एग्रीकल्चर	0.24(हेक्टेयर)	0.24
28	75	निजी	एग्रीकल्चर	0.1(हेक्टेयर)	0.1

29	79	निजी	एग्रीकल्चर	0.04(हेक्टेयर)	0.04
30	8	निजी	एग्रीकल्चर	0.03(हेक्टेयर)	0.03
31	80	निजी	एग्रीकल्चर	0.04(हेक्टेयर)	0.04
32	81	निजी	एग्रीकल्चर	0.09(हेक्टेयर)	0.09
33	9	निजी	एग्रीकल्चर	0.05(हेक्टेयर)	0.05
34	गोंठन	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.4(हेक्टेयर)	0.4
गांव का नाम: लाखनवाड़ा					
1	60	निजी	एग्रीकल्चर	0.335(हेक्टेयर)	0.335
2	61	निजी	एग्रीकल्चर	0.68(हेक्टेयर)	0.68
गांव का नाम: म्हासपुर					
1	124	निजी	एग्रीकल्चर	0.4488(हेक्टेयर)	0.4488
2	120	निजी	एग्रीकल्चर & नॉन एग्रीकल्चर	0.55(हेक्टेयर)	0.55
3	121	निजी	एग्रीकल्चर	0.1(हेक्टेयर)	0.1
4	122	निजी	एग्रीकल्चर	0.03(हेक्टेयर)	0.03
5	127	निजी	एग्रीकल्चर	0.2(हेक्टेयर)	0.2
6	49	निजी	एग्रीकल्चर	0.31(हेक्टेयर)	0.31
7	60	निजी	एग्रीकल्चर	0.13(हेक्टेयर)	0.13
8	76	निजी	एग्रीकल्चर	0.1(हेक्टेयर)	0.1
9	78	निजी	एग्रीकल्चर	0.14(हेक्टेयर)	0.14
10	84	निजी	एग्रीकल्चर	0.02(हेक्टेयर)	0.02
गांव का नाम: सोमठाना					
1	126	निजी	एग्रीकल्चर	0.15(हेक्टेयर)	0.15
2	128	निजी	एग्रीकल्चर	0.02(हेक्टेयर)	0.02
3	93	निजी	एग्रीकल्चर & नॉन एग्रीकल्चर	0.44(हेक्टेयर)	0.44
4	94	निजी	एग्रीकल्चर	0.245(हेक्टेयर)	0.245
गांव का नाम: तपलाबाद					
1	1	निजी	एग्रीकल्चर & नॉन	0.02(हेक्टेयर)	0.02

			एग्रीकल्चर		
2	18	निजी	एग्रीकल्चर	0.06(हेक्टेयर)	0.06
3	19	निजी	एग्रीकल्चर & नॉन एग्रीकल्चर	0.12(हेक्टेयर)	0.12
4	2	निजी	एग्रीकल्चर	0.01(हेक्टेयर)	0.01
5	24	निजी	एग्रीकल्चर & नॉन एग्रीकल्चर	0.01(हेक्टेयर)	0.01
6	39	निजी	एग्रीकल्चर & नॉन एग्रीकल्चर	0.012(हेक्टेयर)	0.012
7	40	निजी	एग्रीकल्चर & नॉन एग्रीकल्चर	0.02(हेक्टेयर)	0.02
कुल				22.6917	22.6917

[फा. सं. NHAI/NAGPUR/AMRAVATI/LA/3A]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st August, 2018

S.O. 4979 (E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/four-laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 161 (including Bypasses) in the stretch of land from Km 2.826 to Km 20.200 (Nanded-Hingoli-Washim-Akola Section) in the district of Akola in the state of MAHARASHTRA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, **the Sub-Divisional officer & Land acquisition officer, Akola, Dist. Akola Maharashtra** in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the Stretch of Land from Km 2.826 to Km 20.200 (Nanded-Hingoli-Washim-Akola Section) on the National Highway No. 161 in District Akola in the state of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA District: AKOLA					
Sno	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature Of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Akola					
Village: Akkalkot					
1	1	Private	Agriculture & Non Agriculture	0.05(Hectare)	0.05
2	20	Private	Agriculture & Non Agriculture	0.13(Hectare)	0.13
Village: Akoli Khurd					
1	21	Private	Agriculture & Non Agriculture	1.095(Hectare)	1.095
2	44	Private	Non Agriculture	0.04(Hectare)	0.04
3	48	Government	Agriculture	1.12(Hectare)	1.12
4	49	Government	Agriculture	0.25(Hectare)	0.25
Village: Chandur					
1	170	Private	Agriculture & Non Agriculture	0.39(Hectare)	0.39
2	215	Private	Agriculture	0.54(Hectare)	0.54
3	217	Private	Agriculture & Non Agriculture	0.42(Hectare)	0.42
4	218	Private	Agriculture	0.05(Hectare)	0.05
5	219	Private	Agriculture	0.25(Hectare)	0.25
6	220	Private	Agriculture	0.1564(Hectare)	0.1564
7	83	Private	Agriculture	0.18(Hectare)	0.18
8	86	Private	Agriculture	0.2845(Hectare)	0.2845
9	Road	Government	Road	0.12(Hectare)	0.12
Village: Chikhalgaon					
1	1	Private	Agriculture	0.07(Hectare)	0.07
2	10	Private	Agriculture	0.03(Hectare)	0.03
3	11	Private	Agriculture	0.09(Hectare)	0.09
4	12	Private	Agriculture	0.02(Hectare)	0.02
5	13	Private	Agriculture	0.02(Hectare)	0.02
6	143	Private	Agriculture	0.12(Hectare)	0.12
7	144	Private	Agriculture	0.16(Hectare)	0.16
8	18	Private	Agriculture	0.7(Hectare)	0.7
9	182	Private	Agriculture	0.28(Hectare)	0.28
10	183	Private	Agriculture	0.6(Hectare)	0.6
11	19	Private	Agriculture	0.5(Hectare)	0.5

12	20	Government	Non Agriculture	0.25(Hectare)	0.25
13	216	Private	Agriculture	0.23(Hectare)	0.23
14	217	Private	Agriculture	0.25(Hectare)	0.25
15	218	Private	Agriculture	0.12(Hectare)	0.12
16	219	Private	Agriculture	0.22(Hectare)	0.22
17	227	Private	Agriculture	0.16(Hectare)	0.16
18	228	Private	Agriculture	0.3(Hectare)	0.3
19	231	Private	Agriculture	0.23(Hectare)	0.23
20	232	Private	Agriculture	0.22(Hectare)	0.22
21	3	Private	Agriculture	0.07(Hectare)	0.07
22	4	Private	Agriculture	0.05(Hectare)	0.05
23	41	Private	Agriculture & Non Agriculture	0.29(Hectare)	0.29
24	5	Government	Agriculture & Non Agriculture	0.05(Hectare)	0.05
25	70	Private	Agriculture	0.07(Hectare)	0.07
26	71	Private	Agriculture	0.02(Hectare)	0.02
27	75	Government	Agriculture	0.69(Hectare)	0.69
28	76	Government	Agriculture & Non Agriculture	0.47(Hectare)	0.47
29	86	Private	Agriculture	0.45(Hectare)	0.45
30	88	Private	Agriculture	0.26(Hectare)	0.26
31	89	Private	Agriculture	0.07(Hectare)	0.07
32	90	Private	Agriculture	0.21(Hectare)	0.21
33	94	Private	Agriculture	0.73(Hectare)	0.73
34	Gaonthan	Government	Non Agriculture	0.3(Hectare)	0.3
Village: Hingana Mhaispur					
1	10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 69 / 1 , 70 / 1 , 74	Government	Agriculture & Non Agriculture	0.69(Hectare)	0.69
2	16	Private	Agriculture & Non Agriculture	0.02(Hectare)	0.02
3	17	Private	Agriculture	0.235(Hectare)	0.235
4	56	Private	Agriculture	0.03(Hectare)	0.03
5	57	Private	Agriculture	0.05(Hectare)	0.05
6	58	Private	Agriculture	0.01(Hectare)	0.01
7	63	Private	Agriculture	0.21(Hectare)	0.21
8	77	Private	Agriculture	0.09(Hectare)	0.09
9	78	Private	Agriculture & Non Agriculture	0.2(Hectare)	0.2
10	79	Private	Agriculture	0.11(Hectare)	0.11
11	80	Private	Agriculture & Non Agriculture	0.09(Hectare)	0.09
12	81	Private	Agriculture	0.06(Hectare)	0.06

13	89	Private	Non Agriculture	0.02(Hectare)	0.02
Village: KAPSHI ROAD					
1	10	Private	Agriculture	0.1(Hectare)	0.1
2	11	Private	Agriculture	0.06(Hectare)	0.06
3	12	Private	Agriculture	0.07(Hectare)	0.07
4	13	Private	Agriculture	0.24(Hectare)	0.24
5	138	Private	Agriculture	0.02(Hectare)	0.02
6	14	Private	Agriculture	0.11(Hectare)	0.11
7	16	Private	Agriculture	0.06(Hectare)	0.06
8	17	Private	Agriculture	0.05(Hectare)	0.05
9	178	Private	Agriculture	0.27(Hectare)	0.27
10	180	Private	Agriculture	0.06(Hectare)	0.06
11	20	Private	Agriculture	0.19(Hectare)	0.19
12	211	Private	Agriculture	0.15(Hectare)	0.15
13	3	Private	Agriculture & Non Agriculture	0.01(Hectare)	0.01
14	32	Private	Agriculture	0.22(Hectare)	0.22
15	33	Private	Agriculture	0.04(Hectare)	0.04
16	34	Private	Agriculture	0.02(Hectare)	0.02
17	35	Private	Agriculture	0.04(Hectare)	0.04
18	40	Private	Agriculture	0.1(Hectare)	0.1
19	42	Private	Agriculture & Non Agriculture	0.26(Hectare)	0.26
20	57	Private	Agriculture	0.01(Hectare)	0.01
21	6	Private	Agriculture	0.07(Hectare)	0.07
22	60	Private	Agriculture	0.03(Hectare)	0.03
23	61	Private	Agriculture	0.02(Hectare)	0.02
24	62	Private	Agriculture	0.04(Hectare)	0.04
25	63	Private	Agriculture	0.07(Hectare)	0.07
26	64	Private	Agriculture	0.05(Hectare)	0.05
27	65	Private	Agriculture	0.24(Hectare)	0.24
28	75	Private	Agriculture	0.1(Hectare)	0.1
29	79	Private	Agriculture	0.04(Hectare)	0.04
30	8	Private	Agriculture	0.03(Hectare)	0.03
31	80	Private	Agriculture	0.04(Hectare)	0.04
32	81	Private	Agriculture	0.09(Hectare)	0.09
33	9	Private	Agriculture	0.05(Hectare)	0.05
34	Gaonthan	Government	Non Agriculture	0.4(Hectare)	0.4
Village: Lakhanwada					
1	60	Private	Agriculture	0.335(Hectare)	0.335
2	61	Private	Agriculture	0.68(Hectare)	0.68

Village: Mhaispur					
1	124	Private	Agriculture	0.4488(Hectare)	0.4488
2	120	Private	Agriculture & Non Agriculture	0.55(Hectare)	0.55
3	121	Private	Agriculture	0.1(Hectare)	0.1
4	122	Private	Agriculture	0.03(Hectare)	0.03
5	127	Private	Agriculture	0.2(Hectare)	0.2
6	49	Private	Agriculture	0.31(Hectare)	0.31
7	60	Private	Agriculture	0.13(Hectare)	0.13
8	76	Private	Agriculture	0.1(Hectare)	0.1
9	78	Private	Agriculture	0.14(Hectare)	0.14
10	84	Private	Agriculture	0.02(Hectare)	0.02
Village: Somthana					
1	126	Private	Agriculture	0.15(Hectare)	0.15
2	128	Private	Agriculture	0.02(Hectare)	0.02
3	93	Private	Agriculture & Non Agriculture	0.44(Hectare)	0.44
4	94	Private	Agriculture	0.245(Hectare)	0.245
Village: Tapalabad					
1	1	Private	Agriculture & Non Agriculture	0.02(Hectare)	0.02
2	18	Private	Agriculture	0.06(Hectare)	0.06
3	19	Private	Agriculture & Non Agriculture	0.12(Hectare)	0.12
4	2	Private	Agriculture	0.01(Hectare)	0.01
5	24	Private	Agriculture & Non Agriculture	0.01(Hectare)	0.01
6	39	Private	Agriculture & Non Agriculture	0.012(Hectare)	0.012
7	40	Private	Agriculture & Non Agriculture	0.02(Hectare)	0.02
Total				22.6917	22.6917

[F. No NHAI/NAGPUR/AMRAVATI/LA/3A]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.